

## जनपद बाराबंकी

दिनांक 05.06.2022

थाना दरियाबाद पुलिस द्वारा आटोलिफ्टर गिरोह का पर्दाफाश, 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की दो अदद मोटर साइकिल व एक अदद नम्बर प्लेट बरामद-

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 05.06.2022 को थाना दरियाबाद पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त 01. अहमद रजा पुत्र मेराज निवासी ग्राम सरायशाह आलम थाना दरियाबाद बाराबंकी, 2. ललित पुत्र बृजेश कुमार निवासी ग्राम लालगंज थाना दरियाबाद बाराबंकी, 3. अरविन्द पुत्र पप्पू निवासी ग्राम लालगंज थाना दरियाबाद बाराबंकी, 4. इसराफील उर्फ सीबू पुत्र मो० इसराइल निवासी मो० कटरा रोशनलाल थाना दरियाबाद बाराबंकी, 5. मो० असलम पुत्र उर्फ ट्वन्टी पुत्र स्व० बकरीदी निवासी ग्राम सराय सिघई थाना दरियाबाद बाराबंकी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की दो मोटर साइकिल नम्बर UP 41 AX 1728 सुपर स्लेन्डर (वास्तविक नम्बर UP 41AH 7477), मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट सुपर स्लेन्डर व मोटर साइकिल नम्बर UP 32KQ 8621 की नम्बर प्लेट बरामद किया गया।

पूछताछ करने पर प्रकाश में आया कि अभियुक्तगणों का एक गिरोह है जो भीड़ भाड़ वाले स्थानों से गाड़ी चोरी करके सस्ते दामों में बेच देते हैं तथा जिस गाड़ी की बिक्री नहीं हो पाती उसे कबाड़ी के माध्यम से मोटर साइकिल के पार्ट्स को बेच देते हैं। अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 22.05.22 को दरियाबाद रेलवे स्टेशन के पास सब्जी बाजार से मोटर साइकिल नम्बर UP 41AH 7477 को चुरा कर नम्बर प्लेट को बदलकर UP 41AX 1728 लिख दिया था, इस सम्बन्ध में थाना दरियाबाद पर मु०अ०सं० 164/2022 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था। दिनांक 08.05.22 को बिना नम्बर की सुपर स्लेन्डर को नियामतगंज बाजार से चुराया था, इस सम्बन्ध में थाना टिकैटनगर पर मु०अ०सं० 132/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। दिनांक-04/03/2022 को मोटर साइकिल UP 32KQ 8621 मथुरानगर दरियाबाद से चुराकर शिबू कबाड़ी के माध्यम से पार्ट्स को बेच दिया है, इस सम्बन्ध में मु०अ०सं० 75/2022 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। अभियोग उपरोक्त में धारा 411/419/420/467/468/471 भादवि की बढ़ोतरी की गयी।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अहमद रजा पुत्र मेराज निवासी ग्राम सरायशाह आलम थाना दरियाबाद बाराबंकी,
02. ललित पुत्र बृजेश कुमार निवासी ग्राम लालगंज थाना दरियाबाद बाराबंकी,
03. अरविन्द पुत्र पप्पू निवासी ग्राम लालगंज थाना दरियाबाद बाराबंकी,
04. इसराफील उर्फ सीबू पुत्र मो० इसराइल निवासी मो० कटरा रोशनलाल थाना दरियाबाद बाराबंकी,
05. मो० असलम पुत्र उर्फ ट्वन्टी पुत्र स्व० बकरीदी निवासी ग्राम सराय सिघई थाना दरियाबाद बाराबंकी

### बरामदगी-

- 1-मोटर साइकिल नम्बर UP 41 AX 1728 सुपर स्लेन्डर (वास्तविक नम्बर UP 41AH 7477),
- 2- मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट सुपर स्लेन्डर
- 3- मोटर साइकिल नम्बर UP 32KQ 8621 की नम्बर प्लेट

### पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ल थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी।
2. उ०नि० श्री सुरेशचन्द्र मिश्र थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी।
3. उ०नि० श्री सुरेन्द्र तिवारी, उ०नि० श्री जयराम थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी।
4. हे०का० अब्दुल हमीद, हे०का० पारसनाथ यादव थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी।
5. का० मोहित खटाना, का० गौरव शुक्ला ,का० राहुल थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी।
6. म०का० पूजा राजूपत थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी।